

नमो भगवते वासुदेवाय
 श्री गुरुभ्यो नमः
 श्री गणेशाय नमः
 श्री विष्णवे नमः
 श्री शिवाय नमः
 श्री ब्रह्माय नमः
 श्री महेश्वराय नमः
 श्री परमात्मने नमः

26/10/18
 सहायक अभियन्ता
 सहायक कार्य विभाग
 कार्य अवर प्रभु
 26/10/18

Re-issued to Sri Ramana Sankar, JE
 Kachur-1

28/10/18
 सहायक अभियन्ता
 सहायक कार्य विभाग
 कार्य अवर प्रभु
 28/10/18

Sch. XLV - Form No. 134

आरक्षक विभाग
 आरक्षक विभाग
 DIVISION
 SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 1071

Name of officer _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Abstract of cart.					
① NW 1/4 - const. of 800 ft. from SW 1/4 Sullivan force to South to Adams Under m. m. d. 507 (S).					
NIA: - soil chromatogram analysis.					
APR. NO - 26. S.B. D/ 2019-20.					
Date of start - 20.8.2019.					
Date of completion - 19.8.2020.					
① Setting out Pillars - do - E/I					
Qty. vide T.M.B. P.N.O. - (15)					
9 Nos. @ R 24.47 = 75/1000 Rs. 22030.00					
① - do - do - E/I					
Qty. vide T.M.B. P.N.O. - (15)					
0.35 Hec. @ R 49739 = 47/1000 Rs. 17409.00					
③ P.V. Box cutting - do - do - E/I					
Qty. vide T.M.B. P.N.O. - (15)					
60.00 m ³ @ R 50 = 01/1000 Rs. 49.00 = 10					
④ Const. of embankment with approved material - do - do - E/I.					
Qty. vide T.M.B. P.N.O. - (15)					
60.00 m ³ @ R 31 = 48/1000 Rs. 1885.00					
⑤ Const. of embankment from borrow pit site, obtained material - do - do - E/I					
Qty. vide T.M.B. P.N.O. - (15)					

Continuation

- ① Initial level - existing m. - 3
427.68 m³ @ R 148 = 57/1000 Rs. 61017.00
- ② Carted clay with m. - 3
106.92 m³ @ R 187 = 51/1000 Rs. 20048.00
C.O. - Rs. 127310.00

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L	B	D	
					B.F. - Rs 1,37,310 = 00
⑥ const. of sub-grade as earlier					
2/1000 - do - do - E.I.					
Qty. vol. T.M.B.P. No. - (16)					
355.88 m^3 @ R 189 = 39/m ³ Rs 67400 = 00					
⑦ P.V. S. m. B. - III - do - do - E.I.					
Qty. vol. T.M.B.P. No. - (16)					
309.33 m^3 @ R 3539 = 34/m ³ Rs 109473 = 00					
⑧ P.V. B. & S. B. by wall graded					
material - do - do - E.I.					
Qty. vol. T.M.B.P. No. - (16)					
168.17 m^3 @ R 2815 = 58/m ³ Rs 47583 = 00					
⑨ E.I. with arch in form - do - E.I.					
Qty. vol. T.M.B.P. No. - (16)					
59.60 m^3 @ R 261 = 20/m ³ Rs 15609 = 00					
⑩ P.V. P.C.C. M. in form -					
- do - do - E.I.					
Qty. vol. T.M.B.P. No. - (16)					
9.20 m^3 @ R 5971 = 04/m ³ Rs 54934 = 00					
⑪ P.V. P.C.C. M. in form					
do sub-structure - do - E.I.					
Qty. vol. T.M.B.P. No. - (16)					
66.91 m^3 @ R 6898 = 37/m ³ Rs 461570 = 00					
⑫ P.V. laying R.C.C. H.P.N. - do - E.I.					
Qty. vol. T.M.B.P. No. - (17)					
15.00 m^3 @ R 3928 = 51/m ³ Rs 58928 = 00					

Continuation

C.C. - Rs 359126 = 00

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
					13.5-22 9359126=10
(13) P/W P.C.C. m ² in Rd. - do F/I					153.05 m ³
Qty. vide T.M.S. P.N.O. - (17)					47.5087=00
" " " " - (19)					407.00 m ³
					560.00 m ³
					ER 7684 = 23/m ² R. 43,03.169=00
					R. 6662235=00
Less - 0.11 1/2 bedlam - (C) R. 7329 = 00					R. 6654966=00
Payment					
Less Dividend & T.M.S. P.N.O. (18) R. 34346300					
R.					R. 3220903=00

226.90.

J.E.